



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31 पटना, बुधवार, 8 श्रावण 1936 (श0)
30 जुलाई 2014 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-6
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	7-8

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई 2014

सं० स0क0मु0स्था0-10-28/2007-3154—श्री अख्तर वासिफ, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय को विभागीय अधिसूचना संख्या 2948 दिनांक 04.08.2011 द्वारा ICDS निदेशालय पटना में प्रतिनियुक्ति किया गया था।

अधिसूचना संख्या-2948 दिनांक 04.08.2011 को निरस्त करते हुए श्री वासिफ को सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, पटना में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामाशीष पासवान, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 जुलाई 2014

सं० क०/बैठक-01/99-426—गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या—क०/स्था०-01/99-375 दिनांक 26.05.2011 द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 25.05.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978(बिहार अधिनियम-3,1979) की धारा-4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है:—

- (क) अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास आयुक्त—सह—अध्यक्ष, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर ।
- (ख) अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जिलों के जिला परिषद् के अध्यक्ष
1. अध्यक्ष, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर
 2. अध्यक्ष, जिला परिषद्, वैशाली
 3. अध्यक्ष, जिला परिषद्, सारण (छपरा)
 4. अध्यक्ष, जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
 5. अध्यक्ष, जिला परिषद्, प० चम्पारण (बेतिया)
 6. अध्यक्ष, जिला परिषद्, सिवान
 7. अध्यक्ष, जिला परिषद्, गोपालगंज
 8. अध्यक्ष, जिला परिषद्, समस्तीपुर ।
- (ग) अभिकरण के कार्यक्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं विधान मंडल के चार सदस्य (तीन विधान सभा एवं एक विधान परिषद् से)
- कृषक प्रतिनिधि
1. श्री मिथलेश सिंह, श्री कृष्णनगर, मोतिहारी
 2. श्री डी०पी० चौधरी, पिथुनीबाग, बेतिया ।
- विधान मंडल सदस्य
1. श्री सुनील कुमार सिंह, स०वि०प०, गोपालगंज
 2. श्री राजेश सिंह, स०वि०स०, बाल्मिकीनगर
 3. श्री दिनेश प्रसाद, स०वि०स०, मीनापुर
 4. श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०, बैकुण्ठपुर ।
- (घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता— मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर/वाल्मीकिनगर/सीवान, जल संसाधन विभाग, बिहार, ।
- (ङ) इस धारा की अन्य उप-धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी—
1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
 2. निदेशक, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
- (च) राज्य जल संसाधन विभाग बोर्ड का एक प्रतिनिधि— मुख्य अभियंता, नलकूप परियोजना, (उत्तर) मुजफ्फरपुर ।

- (छ) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनका प्रतिनिधि अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
- (ज) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि— निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।
- (झ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में कार्य करनेवाले वाणिज्यिक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि 1. प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
- (ट) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
- (ठ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय सलाहकार, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर ।
- (ड) एजेन्सी का प्रबंध निदेशक— गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष ही प्रबंध निदेशक का कार्य करेंगे ।

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

4. गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभि0)।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर 2013

सं० 11/अ0प्र0-3-1/12-13687—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-1 के पत्रांक 1220अनु0 दिनांक 18.01.2013 से निम्न वर्णित पथ की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरान्त नीचे वर्णित पथ को पथ निर्माण विभाग, बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:-

क्र० स०	कार्यप्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई
1	2	3	4
1	बगहा-1/प० चम्पारण	रामनगर प्रखंड के अन्तर्गत प्र०मं०ग्रा०सड़क योजनान्तर्गत पैकेज नं०-BR-37R-340-T07 से बनकटवा पथ का पथांश:- 1. पथ का चेनेज 800 मी० से 1500 मी० - 700 मी० 2. चेनेज 2100 मी० से 3200मी० - 1100 मी० 1800 मी०	1800 मीटर (एक हजार आठ सौ) मीटर
2	बगहा-1/प० चम्पारण	पी०डब्ल्यूडी० रोड गोबर्धना से गोबरिहया पथ का पथांश 1200 मी० से 1600 मी० अर्थात् 400 मी०	400 मीटर (चार सौ) मीटर
3	बगहा-1/प० चम्पारण	नौरंगिया से बहुअखा पथ (प्रखंड बगहा-2) का पथांश	150 मीटर (एक सौ पचास) मीटर

क्र० स०	कार्यप्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई
1	2	3	4
4	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में पी०एम०जी०एस०वाई० पथ तिनफोड़िया से मिश्रौली (पैकेज नं०- BR-37R-030)पथांश	100 मीटर (एक सौ) मीटर
5	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 के प्रखंड में एम०एम०जी०एस०वाई० (पुराना) योजनान्तर्गत निर्मित पथ बरवा खुर्द से पाड़रखाप (मझौवा से मिश्रौली) पथ का पथांश	73 मीटर (तिहत्तर)मी०
6	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में एम०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत निर्मित पथ बरवा खुर्द से पाड़रखाप(मझौवा से बरवा) पथ का पथांश	7 मीटर (सात) मीटर
7	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में पी० एम० जी० एस० वाई० पैकेज नं०- BR-37R-019 सेमरा से तरुनवा पथ (नौतनवा-सेमरा) का पथांश।	85 मीटर (पचासी) मीटर
8	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत BR-37R-032 लौकरिया से खजुरिया (लौकरिया से लक्ष्मी सौराहा) पथ का पथांश।	45 मीटर (पैंतालीस) मीटर
9	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत फेज-2 से निर्मित पथ BR-37-04 सेमरा चिउटाहॉ(लक्ष्मीपुर-चिउटाहॉ) पथ में क्रमशः 18 मीटर और 24 मीटर पथांश	42 मीटर (बयालीस) मीटर
10	बगहा-1/प० चम्पारण	बगहा-2 प्रखंड में पी०एम०जी०एस०वाई० से निर्मित पथ BR-37-04 सेमरा चिउटाहॉ (सेमरा-रतनपुरवा) पथ पथांश	43 मीटर (तैंतालीस) मीटर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

अभियंता-प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।

भवन निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

18 जुलाई 2014

सं०सं०-10/सूचना-04-11/2004-7494(भ)---श्री उदयानंद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना संप्रति तकनीकी सलाहकार, पटना भवन प्रमंडल, पटना जो वर्तमान में तकनीकी सलाहकार, निदेशक अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर कार्यरत है, को विभागीय अधिसूचना सं०-11892(भ०) दिनांक 27.08.2013 सहपठित ज्ञापांक-11893(भ०) दिनांक 27.08.2013द्वारा गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना अंतर्गत पी०सी०सी० सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का व्यवहार होने से संबंधित जाँच में प्रभावित आरोपों के लिए निर्माकित दंड संसूचित किया गया था:-

1. निन्दन
2. दो वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक
3. उक्त कार्य में हुई सरकार को वित्तीय क्षति के कारण रू० 9809/- की वसूली उनके वेतन से एक मुश्त करना।

श्री सिन्हा की सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2015 है। ऐसे में अगस्त 2013 के पश्चात् एक ही वेतनवृद्धि 01.07.2014 को देय होगा, जिसे रोका जा सकता है।

अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर श्री सिन्हा को विभागीय अधिसूचना सं0-11892(भ0) दिनांक 27.08.2013 में दिये गये लघु दंड क्रमांक- 2“दो वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक” को अब “एक वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक” पढ़ा जाय। शेष सभी यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार सुमन, संयुक्त सचिव-सह-विशेष

कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—1—05/2014—3482
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

संकल्प

27 जून 2014

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्र संख्या—1438, दिनांक 09.06.14 के आलोक में तथा निगरानी धावा दल के द्वारा दिनांक 03.06.2014 को परिवादी मिन्दु रंजन से श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन जेल अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद को 51,000 (एक्कावन हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या—39/14 दिनांक 03.06.14 धारा—7/13 (2)—सह—पठित धारा—13 (1) (डी०) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—1988 के तहत वाद दर्ज किया गया है। फलतः श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन जेल अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं 9 (2) (क) के आलोक में उन्हें गिरफ्तार होने की तिथि दिनांक 03.06.2014 से निलंबित किया जाता है।

2. श्री मिश्रा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के अनुसार निलंबन अवस्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबनावधि में श्री मिश्रा को जीवन यापन भत्ता आदि का भुगतान एवं संसीमन से मुक्त होने के उपरान्त निलंबनावधि के प्रयोजनार्थ उनका मुख्यालय विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव—सह—निदेशक, प्र०।

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

18 जुलाई 2014

सं०सं०-भवन/10-आरोप(सहा०अभि०)—24/2014—7493(भ)—श्री राणा विद्याधर, प्राक्कलन पदाधिकारी, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना भवन निर्माण विभाग, पटना को अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक—7243 दिनांक 30.10.2013 के द्वारा द्वारा श्री ब्रजमोहन सिंह, चतुर्थवर्गीय कर्मी—सह—केयर टेकर, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री राणा विद्याधर पर मुख्य आरोप है कि श्री ब्रजमोहन सिंह, निलंबित चतुर्थवर्गीय कमी-सह-केयर टेकर, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन में प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में इनकी भूमिका असहयोगात्मक रही तथा सुनवाई की तिथि 30.11.2013, 25.01.2014 एवं 15.02.2014 को ये अनुपस्थित रहे।

उप-सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4117(भ0) दिनांक 10.04.2014 द्वारा श्री राणा विद्याधर से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राणा द्वारा दिनांक 22.04.2014 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। दिनांक 25.01.2014 को दो आकस्मिक अवकाश में थे किंतु अन्य तिथियों यथा 30.11.2013 के अनुपस्थित के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके साथ ही 15.02.2014 को भी अपनी अनुपस्थिति होने के परिस्थिति से संचालन पदाधिकारी को ससमय अवगत नहीं करा सके। फलतः आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान पर श्री राणा विद्याधर प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया जा सका।

इस प्रकार दिनांक 30.11.2013 के संचालन कार्यवाही में अनुपस्थिति की स्वीकारोक्ति के आलोक में इन्हें लघु दंड के रूप में “एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक” का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार सुमन, संयुक्त सचिव-सह-विशेष

कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**